

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन नौएडा(ज0प्र0)

रांगा नौएडा/मुख्यमंत्री/2016/ IV - 1493/ ९५०
दिनांक: ०६/११/२०१६

सेवा में,

**M/s ATS Homes Pvt. Ltd.,
711/92, Deepali, Nehru Place,
New Delhi - 110019**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2016 के संदर्भ में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टंडियम कम स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड संख्या एस०सी० - ०१/०१, सैकटर - 152, नौएडा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ रवीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानवित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (नान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक चैथ है।
2. मानवित्रों की इस रवीकृति से इस भूखण्ड से स्मार्थित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (गवर्नरलिला, नौएडा प्राधिकरण), किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वागतिक किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानवित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि मरीज में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यवहार भूमि जायेगा तो वह किसी बिना आवत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे एवं खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो सरकारे पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर दौड़ाव(प्रोजेक्टेड) न हो।
6. विजली की लाईन से पांच फुट के ऊन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जाएगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामूही भूखण्ड के सामने रखने से सलक पर यातायात बहरन्डा नहीं होना चाहिए।
8. रवीकृत मानवित्रों का एक रोट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी गौके पर जनी भी जांब की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानवित्रों के ऐरीफिलेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहसाने का निर्माण लाये पूरा बत्ते के उपरान्त तहसाने का नयन प्रकोष्ठ विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। उन्हांना स्वीकृत मानवित्र स्वतः नियम समान जायेगा।
9. आवंटी नेबेगाइन टल/अन्य टल या रवीकृत मानवित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा तान्यथा रवीकृत मानवित्र स्वतः नियम समान जायेगा।
10. सलक पर अथवा बैक लेन में कोई ऐसा अथवा स्टैरा नहीं बनाए जाएंगे। वह कार्य उपर्युक्त ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मज़ की निकासी की लगातार ला नियोक्षण नौएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं नियोक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे छोड़ेगा।
12. यह मानवित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक यैथ रुपें वश्वर्त पट्टेदार को पट्टे के अधिकार सपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा दिया दे। पट्टे के अधिकार सपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानवित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक तामझा जायेगा।

13. आवंटी को अधिनियम प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सन्वान्धित विभाग ले निष्पानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर ब्रह्मत करना होगा ।
14. आवंटी निर्माण कार्ड दूर करने के बाद तहखाने की छत ढालने से पूर्व कसी रल पर एवं भूजल की छत ढालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरोक्षण अवश्य करायेगा ।
15. स्वीकृत ले-आउट ज्ञान को स्वीकृत सच्चा IV-1486/स्वीकृति - 925, दिनांक 26.08.2016 के साथ नियम/प्रतिवन्द एवं शर्त आदि यथावत पूर्णरूप से लीज घारक पर भी लागू होगी तथा इस स्वीकृति का अधिन भाग रहेगा ।
16. बोशर, लीजडीड, सहलीज डीड, महारोजना, बिल्डिंग रेग्लेशन्स आदि के गश ज़ाहित अग्राविल निराम, शर्तें, प्रतिवन्दों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेगे ।
17. यह स्वीकृति सदा रूप्यांशु अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कम स्पोर्ट्सटी की योजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा खरांत्रल से इस प्रस्तावित नियम की स्वीकृति का बोइ अस्तित्व नहीं रखेगा ।
18. बान्दरसंभूति क्रिकेट स्टेडियम कम स्पोर्ट्सटी की परियोजना के लिए ब्रोशरलीज डीड में अंकित सुनिधाओं के विकास एवं वित्तीय परिव्यय के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने का दायित्व/सह दायित्व मूल लीज लील घारक एवं सब लीज दील घारक का संयुक्त रूप से रहेगा ।
19. मनोरंजन(हेल, चंचागत, उन्ना गुडिशाओं) के अनुपयोगित एक००५०आर० 143,211.998 वर्ग मीट (जो कि संवर्धित योजना के आवासीय एक००३०आर० का 50.77% है) आवासीय उपयोग से स्थानान्तरित कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन घटक की सभी कार्य एवं सुनिधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त अधिनियम प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा, जिसको रघुलीज लील घारक को हिस्से में आने वाले भाग के मानविक्र में इस्तवित आवासीय नियमण में फेस-2 के रूप में दर्शाया गया है । इससे पूर्व इस भाग की स्वीकृति नव प्रतीकान्तक रूप में ही मान्य होगी ।
20. प्रस्तावित सर्विस आपार्टमेंट के नियम के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एज्ट, 2010, तथा इसके अधीन जारी नियंत्रण जा अनुपालन सुनिश्चित जरूर होगा तथा अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर नियांत्रित प्रालय पर धोषणा वत्र प्रस्तुत करना होगा ।
21. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुक्षयांग नहीं किया जावेगा एवं प्रश्नगत केन्द्र या दृष्टिकोणी के दृष्टिकोण रेनवाटर टार्डीस्टेट/भू-जल दोहन की व्यवस्था लेन्द्रीय भू-जल नियन्द अधिकार उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राक्षिपणों के अन्तर्गत करना होगा ।
22. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी पूर्णांग एवं आवेदन हेतु विवरण पुस्तिका की विषय एवं जर्टी/लीज डीड की शर्त/नोएडा नहायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी व्याख्यानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति खत्ता निरला मानी जायेगी ।
23. सभी भवनों आदि के नियांत्रित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेग्लेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली 2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य कियाये एवं उपयोग तथा उसके योग्यता यूज में अनुमन्य कियाये एवं उपयोग के अंतर्गत अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी । यह प्रतिवन्द गूल पट्टाधारक, डप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा ।
24. पंजीकरण एवं आवेदन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील बनाने तक सतत समीक्षा की जायेगी ।

25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तका एवं लोज़ फॉड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु नियमित सम्बाधिति के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
26. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना मुख्यालये तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुरक्षात कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपर्यन्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्पलीशन स्टडीफिकेट प्राप्त करने के उपर्यन्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
27. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं बैकलिपक ऊर्जा का उपयोग, जलानुर्ति वितरण व्यवस्था एवं धूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, जर्मा जल संचयन, चरित्यकारी एवं पर्यावरण संरक्षण, धूमि खुपाई एवं उत्तरान, वृक्षारोपण/तैण्ड स्कैपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीलेज डिस्ट्रीब्युल एवं मॉलिड चेस्ट मैनेजमेंट आदि की जावस्था समन्वित जासक्त विभागों को गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनावृति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार वर्ती होगी।
28. सम्पूर्ण परिसर में विचुन मुख्या, आगंशमा मुख्या, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेक्टोर/न्हींवेलटी, 30 मोहर से ढंगे भवनों हेतु एवरपोर्ट अधारितो आदि के मानकों एवं समन्वित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/जामनादेशो एवं उनकी अनावृति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
29. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास जार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रुक्सान, अनुरक्षण जननेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस समन्वय में नोएडा प्राधिकरण एवं जासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
30. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियान्वयन आदि का उप विभाजन, सब लोज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लोज फॉड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राधिकारों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की धरावस्थ के पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
31. परियोजना के समस्त परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुरक्षात के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के स्वयं में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
32. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, अवस्थापना मुख्यालये, जन मेलाओं एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं बहन करना होगा जिसमें देश समस्त शुल्क, चार्ज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू)भी सम्मिलित है।

33. पारेजर में इस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं धृतों के संख्यावाला गुणवत्तापूर्वक आवेदक को यथां अपने व्याय पर करना होगा।
34. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कल्पा दिए नवे क्षेत्रफल के सामेश ही अनुमत्य होगा।
35. स्थल पर निर्माण व्यार्थ शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन नियांत्रण भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधिकों, इसने समय-समय पर संशोधनों तथा उन्नत गंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रनाल पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति पर्यावरण सम्बन्धित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमत्य होगी। पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियन्त्रण कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
36. रामी प्रस्तुत की गयी/की जाने वाली अनापत्ति प्रगाण पत्र यथा - प्रदूषण, पर्यावरण, रद्दमाल रटेबिलिटी, अग्निशमन, एडार पोर्ट डिपोरिटी से अनापत्ति पत्र, अदेवत प्रमाण पत्र आदि में अंकित सभी प्रतिबन्धों एवं शर्तों का स्थावरा अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व आवंटी/आवेदक का होगा, जिसका पालन न किये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त एवं निष्पादी माने जायेगे।
37. मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 21/2012 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं उन्य तथा गूल प्रार्थना पत्र सं0 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्यों हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण गंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अवारण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें।
38. स्वीकृत मानवित्र इस पत्र के साथ सलंगन है। भवन लायै मानवित्र की वेद्धा तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा निना आज्ञा य प्रगाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।
39. यह स्वीकृति केवल कंसेप्ट ले-अडट ज्ञान को तदर्थं मैदानिक स्वीकृति मात्र है। ले-अडट ज्ञान को स्वीकृति का उपयोग परियोजना के अधारभूत स्वरूप की गार्ड लाइन्स के रूप में ही किया जायेगा। सभी विकास एवं निर्माण कार्याएं को कि यान्वित कराये जाने के समय अन्य तकनीकों एवं नियोजन सम्बन्धी मानकों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नोएडा पर्यावरण द्वारा अन्य यथा अवश्यक परिवर्तन किये जाने हेतु निर्देश त किये जाने पर उनका अनुपालन अवेदक को करना होगा।
40. यह स्वीकृति अन्तर्राष्ट्रीय फिकेट स्टेंडिंग कम स्टोर्ट मिटी की परियोजना के भूखण्ड अवंटन हेतु पंजीकरण एवं अवंटन पुस्तिका की नियम एवं तै/लोज डोड की तै/नोएडा महायोजना 2031/नोएडा भवन विनियमावली 2010 के सुसंगत यथा य भावी प्राविधिकों के अवीन होगी जिनके उल्लंघन को द। में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

41. यह स्वीकृति अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कम स्पोर्ट सिटी की यथा परिधा त मुख्य कियाजो एवं उपयोग के साथ मुख्य परियोजना के स्वरूप में तथा उसके साथ अनुमन्य सीमा तक अनुसांगिक आवासीय एवं व्यवसायिक कियाजो एवं उपयोग के रूप में विकसित की जायेगी। मनोरंजन किया हेतु आरक्षित क्षेत्र का अनुउपयोगित अवशेष एफ.ए.आर. (84,056.446 वर्ग मी० एवं सम्पूर्ण योजना का अवशेष एफ.ए.आर. 2,94,523.934 वर्ग मी० कुल 3,78,580.38 वर्ग मी० जो कि कुल आवासीय प्रत्यावेत एफ.ए.आर. का 50.77% है) का उपयोग आवासीय क्षेत्र के निर्माण में तभी उपयोग किये जाने की अनुमति होगी जब खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाये तथा खुले स्थान को पूर्ण रूप से विकसित/निर्मित कर लिया जायेगा। नोएडा महायोजना-2031 के प्रस्तार- 5.9.3 के प्राविधानों का पूर्ण रूप से अनुणालन करने के साथ इन्ड्रीशेटेड बिनी टाउनशिप के रूप में सभी आधुनिक एवं विश्व न्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाओं के साथ विकसित किये जाने का प्राविधान रखा जाना होगा। समस्त स्पोर्ट्स स्टूडियो, बिल्डिंग एवं परिसर, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित मानकों के अनुसार विकसित करने तथा उससे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अधिभोग में लाया जायेगा।
42. ले-आउट प्लान के अनुरूप उसमें दर्शाये गये सभी प्रकार के भवन निर्माण किये जाने से पूर्व प्रत्येक भवन का उसके निर्धारित उपयोग के अनुसार नोएडा भवन विनियमावली 2010(यथा संशोधित सुसंगत प्रभावी प्राविधानों सहित)के अनुसार निर्धारित शुल्क व प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों तथा विस्तृत मानचित्रों के साथ पृथक से आवेदन कर पूर्ण रूपोकृति प्राप्त करनी होगी।
43. ले आउट प्लान के अनुसार सम्पूर्ण परिसर एवं उसके अन्तर्गत सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेग्युलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कम स्पोर्ट सिटी के अन्तर्गत अनुमन्य कियाये एवं उपयोग तथा उसके संबंधित यूज़ में अनुमन्य कियाये एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पद्धतिभारक, उप पद्धतिभारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
44. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत् समीक्षा की जायेगी जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी। इसमें सभी प्रकार के भवन निर्माण एवं विकास कार्य, भौतिक अवस्थागता सुविधायें, सामुदायिक एवं जन सुविधाओं आदि का तकनीकी, नियोजन, डिजाइन, रैपिडिफिल्डशन्स, आगामन, वित्तीय जीवनशैली एवं अन्य पहलू, परियोजना कार्यों को पूर्ण करने का समयावधि चार्ट/ अनुग्रहण आदि का समावेश करते हुए प्राधिकरण को

परीक्षण हेतु यथा निर्देशित प्रतियों वे उपलब्ध करायी जायेगी जिसको स्वीकृत उपरान्त ही विकास एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

45. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लोज फोड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि एवं चूनतम् निर्धारित बिलोंय परिव्यय के साथ परियोजना पूर्ण करनी होगी।
46. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधाओं तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कॉप्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
47. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कम स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में ज्ञासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलाभूर्ति वितरण अवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्विचारण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्थन, वृक्षारोपण/लैण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सौलिड वेस्ट बैनरेजेन्ट आदि की अवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी। उपरोक्त सम्बन्धित सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
48. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कम स्पोर्ट सिटी के मध्यूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, धूक्रापराधी निर्गण एवं स्टूकचरल सेफ्टी/स्टैचिलटी, 30 मीटर से ऊचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अधारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/ज्ञासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
49. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कम स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं, अवस्थापना सुविधाओं, सभी स्टूकचर्स, यथोपकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, पारंचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण अवेदक सम्पत्ति को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा परिवर्तन एवं तासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
50. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कम स्पोर्ट सिटी के यथोपकार के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्टूकचर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग अधारित कि यात्रे आदि का उप विभाजन, सब लोज, सब लैटिंग आदि अवेदक संस्था द्वारा अवंटन नियमावली, लोज फोड, नोएडा परिवर्तन के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली 2010, नोएडा महावाजना-2031(यथा मंशोधित एवं प्रभावी) के

प्राविधिकानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयों की मूर्खनुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।

51. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु, बीएसीएसीआई व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर पर स्टेडियम निर्माण कर प्रमाणित करना होगा।
52. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाये एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
53. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आनंदिक एवं वाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधाये, जन सेवाये एवं मामुदायिक सुविधाये आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यव आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देव समस्त शुल्क, चार्जेज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू)भी सम्मिलित है।
54. गुणवत्तापूर्वक उच्चस्तरीय ढंग से परियोजना के कियान्वयन अवधि के समय तथा उसके उपरान्त अनुरक्षण, विशिष्ट लेन आयोजन अवसर पर विशेष व्यवस्था, मंचालन, अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण, मथानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन, मक्षम न्यायालय आदि के अन्य नीतिगत निर्णयों/निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से आवेदक को करना होगा।
55. यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सेटी की परियोजना के एकीकृत भाग के रूप में ही नान्य होगी तथा स्वतंत्ररूप से किसी भवन परिसर के निर्माण की स्वीकृति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सभी सब-लीज के भूखण्डों के मध्य लोई विभाजित करने वाला निर्माण यथा - बाहरप्री वॉल आदि का निर्माण किसी भी स्थिति में अनुगत्य नहीं होगा।
56. सन्पर्क योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत लेत्र की लाइटोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर लार्सेट्ट/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधिकानों के अन्तर्गत करना होगा।
57. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति के सम्बन्ध में आबंटी द्वारा अपने आवेदन की प्रति जमा करायी गयी है, आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के जारी होने के 30 दिन के अन्दर सन्दर्भित भवन की अग्निशमन यिनाग से प्राप्त अनापत्ति प्राधिकरण में जना करानी होगी।
58. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिको एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि शुद्धार्थ एवं उत्थनन, वृक्षारोपण/लैण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक बानिकी, सीबेज हिस्पोजल एवं सॉलिड ब्रेस्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।

59. लोज ब्लॉड की शर्तों के अनुसार पहले अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कम स्पोर्ट सिटी, संस्थागत एवं अन्य सुविधाओं का विकास करना होगा एवं पहले इनके मानचित्रों पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तदोपरांत ही अन्य भू-उपयोग रामबन्धी मानचित्रों पर स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जाएगी।
60. अनाजित एवं जिस भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है उस दर्शाये गये प्रस्ताव प्रतीकत्मक(दृष्टव्यदृष्टि) हैं एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के उपरांत इसे समिलित करते हुए पुनः ले - आउट प्लान / भवन मानचित्र पुनरीक्षित करना होगा।
61. आवंटी संस्था डोशर के अन्दर निर्धारित रूपों से क्रियाएं एवं अन्य रुदिधाओं हेतु निर्धारित व्यय, निर्धारित रायग - रीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाने हेतु बाध्य होगा।
62. ग्रीन बिलिंग हेतु अनुमन्य अतिरिक्त ५% एफ०ए०आर० भवन विनियमावली, 2010 के प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमन्य होगा, जिसका अनुपालन न करने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

लोज भूखण्ड एस०सी० - ०१/०१, सैक्टर - १५२ पर निर्माण का विवरण

• भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	= 1,42,879.51 वर्ग मी०
• लोज भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 1,06,852.08 वर्ग मी०
• स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य भू-आच्छादन	
आवासीय	= 22,545.62 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 8750.00 वर्ग मी०
फोरेलिटी	= 760.00 वर्ग मी०
कुल	= 32,055.62 वर्ग मी०
• प्रस्तावित भू-आच्छादन	
आवासीय	= 12,018.205 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 5980.890 वर्ग मी०
फोरेलिटी	= 655.00 वर्ग मी०
कुल	= 18,654.593 वर्ग मी०
• स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य एफ०ए०आर०	
आवासीय	= 3,44,781.09 वर्ग मी०
५% ग्रीन बिलिंग	= 18,039.05 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 16,000.00 वर्ग मी०
कुल	= 3,78,820.14 वर्ग मी०
अनुमन्य सेवा क्षेत्रफल का १५%	= 54,117.16 वर्ग मी०
• प्रस्तावित एफ०ए०आर०	
आवासीय	= 2,82,079.966 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 15,050.680 वर्ग मी०
कुल	= 2,97,130.644 वर्ग मी०
प्रस्तावित सेवा क्षेत्रफल का १५%	= 41,162.662 वर्ग मी०

घनत्व(डेन्सिटी गणना)

● भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 1,06,852.08 वर्ग मी०
● रवीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य ड्वेलिंग यूनिट्स	= 2186 यूनिट
● कुल प्रस्तावित ड्वेलिंग यूनिट्स	= 1720 यूनिट
● व्यक्तियों की अनुमन्य संख्या - 2186 X 4.5	= 9837 व्यक्ति
● प्रतावित = 1720 X 4.5	= 7740 व्यक्ति

पार्किंग का विवरण

● कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता आवासीय(282079.966/80) = 3526 पार्किंग स्थल	
● कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता वाणिज्यिक (15050.68/50) = 301 पार्किंग स्थल	
● कुल आवश्यक पार्किंग स्थल	= 3827 पार्किंग स्थल

प्रस्तावित पार्किंग आवासीय

● प्रस्तावित पार्किंग स्थल(वेसमेंट) (58076/30)	= 1935 पार्किंग स्थल
● खुले क्षेत्र में प्रस्तावित पार्किंग स्थल (7020/20)	= 351 पार्किंग स्थल
● स्टिल में प्रस्तावित पार्किंग स्थल(39114.00/30)	= 1304 पार्किंग स्थल
● कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल आवासीय	= 3590 पार्किंग स्थल

प्रस्तावित पार्किंग वाणिज्यिक

● प्रस्तावित पार्किंग स्थल(वेसमेंट) (12818.643/30)	= 427 पार्किंग स्थल
● खुले क्षेत्र में प्रस्तावित पार्किंग स्थल (1200/20)	= 60 पार्किंग स्थल
● कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल वाणिज्यिक	= 487 पार्किंग स्थल

कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल (आवासीय + वाणिज्यिक) = 3590 + 487 = 4077 पार्किंग स्थल

हरित क्षेत्र का विवरण

● भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 1,06,852.08 वर्ग मी०
● प्रस्तावित भू-आच्छादन(नसिंग होम व स्कूल सहित)	= 20,654.593 वर्ग मी०
● कुल खुला क्षेत्रफल भूखण्ड का क्षेत्रफल (1,06,852.08 - 20,654.593)	= 86,197.487 वर्ग मी०
● हरित क्षेत्र की आवश्यकता (खुले क्षेत्र का 50%)	= 43,098.74 वर्ग मी०
● प्रस्तावित खुला क्षेत्र	= 43,379.80 वर्ग मी०
● कुल पौधों की आवश्यकता 86,197.487/100 - 861.97	- 862 पौधे

आवंटी संस्था द्वारा मानविकों में कुल 865 पौधों की संख्या प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 50% पौधे लगभग अवधी एवं उने छायाचार दर्शाये गये हैं।

सेटबैक विवरण:-

सेटबैक	अनुमन्य (मी०)	प्रस्तावित (मी०)	
		तहखाना	भवन
अग्र	12.0	6.0	12.0
पृष्ठ	12.0	6.0	12.0
बाहु साइड	12.0	6.0	12.0
दाहु साइड	12.0	6.0	12.0

तल-वार विवरण

तल	उपयोग	अनुमन्य एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	नॉन एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)	प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
बेसर्मेट तल		...	5122.911	00
गूतल/टिल	आवासीय, वाणिज्यिक य कम्प्युनिटी ब्लॉक	32,055.62	2552.161	8121.893
प्रथम तल	आवासीय, वाणिज्यिक य कम्प्युनिटी ब्लॉक		2193.358	12653.557
द्वितीय तल	आवासीय, वाणिज्यिक य कम्प्युनिटी ब्लॉक		1665.822	12283.042
तृतीय तल	आवासीय		1504.056	7766.828
चतुर्थ तल	आवासीय		719.810	7766.828
पंचम तल	आवासीय		719.100	7766.828
छठवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
सातवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
आठवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
नौवा तल	आवासीय		719.100	7766.828
दसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
गोरखवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
बारवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
चौदहवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
पन्द्रहवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
सोलहवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
सत्रहवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
अट्ठारहवां तल	आवासीय		719.100	7766.828

उन्नीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
बोनार्या तल	आवासीय		719.100	7766.828
इकट्ठीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
ताइसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
तैइसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
चार्बीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
पच्चीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
छठीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
सत्ताष्टावां तल	आवासीय		719.100	7766.828
बाहुद्यासवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
उन्नातीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
तैसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
इक्कीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
द्वादशीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
तैसीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
चौतीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
प्रतीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
छौतीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
प्रतीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
छौतीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
संतीसवां तल	आवासीय		719.100	7766.828
ममठी/मशीन रूम			4343.34	000
कुल		3,78,820.14	41,162.662	2,97,130.644
स्टिल व पोड़ि			39114.00	
एसिया				
बेसर्मेट			73727.387
कुल क्षेत्रफल (एक०ए०आर०, नौन एक०ए०आर०, स्टिल व पोडियम व बेसर्मेट सहित)		= 41,162.662 + 2,97,130.644 + 39114.00 + 73,727.387		= 4,51,134.693 वर्ग मीटर

टिप्पणी - स्पोर्ट स्टीटी का अवशेष एक०ए०आर० (प्रत्यापित आवासीय एक०ए०आर० 2,82,079.966 वर्ग मी० का 50.77% अर्थात् 1,50,853.23 वर्ग मी०) का उपयोग आवासीय / शुप हाऊसिंग के उपयोग में स्पोर्ट स्टीटी के पूर्ण हो जाने के बाद किया जा सकेगा।

Map for proposed Building is as per Bye
Laws submitted for Approval Please.

Mr. Asslt.

Asslt. Arch

Architect

प्रतिलिपि:

1. विशेष लार्याइकरी (वापिस्याल) को सुचनाथ एवं आवश्यक कारबाही हेतु प्रेषित।
2. स्केट्री, स्टेट लेवल इन्वारमेन्ट इम्पेक्ट एरिनामेंट अशोरिटी, ल०प्र०, डाकोटारेट ऑफ एनवायरेन्ट, ड०० भीनराय अमोरकर एर्यावरा पारिसर चैनील खान्ड - 1, गोपाली नगर, लखनऊ - 226010, उ०प्र० को सादर सुचनाथ।

नाम.....
पद.....
नोएडा दिव्यास्त्र
नोएडा दिव्यास्त्र/एम
नोएडा दिव्यास्त्र/एम